



## चेतक की वीरता

रण-बीच चौकड़ी भर-भरकर  
चेतक बन गया निराला था।  
राणा प्रताप के घोड़े से  
पड़ गया हवा को पाला था।

गिरता न कभी चेतक-तन पर  
राणा प्रताप का कोड़ा था।  
वह दौड़ रहा अरि-मस्तक पर  
या आसमान पर घोड़ा था।

जो तनिक हवा से बाग हिली  
लेकर सवार उड़ जाता था।  
राणा की पुतली फिरी नहीं  
तब तक चेतक मुड़ जाता था।

कौशल दिखलाया चालों में  
उड़ गया भयानक भालों में।  
निर्भीक गया वह ढालों में  
सरपट दौड़ा करवालों में।  
है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं  
वह वहीं रहा है वहाँ नहीं।  
थी जगह न कोई जहाँ नहीं  
किस अरि-मस्तक पर कहाँ नहीं।






बढ़ते नद-सा वह लहर गया  
वह गया गया फिर ठहर गया।  
विकराल बज्र-मय बादल-सा  
अरि की सेना पर घहर गया।  
भाला गिर गया, गिरा निषंग,  
हय-टापों से खन गया अंग।  
वैरी-समाज रह गया दंग  
घोड़े का ऐसा देख रंग।

— श्यामनारायण पाण्डेय



## कवि से परिचय

वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्यामनारायण पाण्डेय की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यकृति ‘हल्दीघाटी’ का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो ‘चेतक की वीरता’ कविता पढ़ी है, वह ‘हल्दीघाटी’ का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में ‘हल्दीघाटी’ काव्यकृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था।



(1907–1991)

चेतक की वीरता

## पाठ से



### मेरी समझ से

अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी।

(क) नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन-सा है? उसके सामने तारा (★) बनाइए—

(1) चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था?

- चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर बज्रपात बनकर टूट पड़ता था।
- चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेरकर उस पर टूट पड़ता था।
- चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था।
- चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था।

(2) ‘लेकर सवार उड़ जाता था’ इस पंक्ति में ‘सवार’ शब्द किसके लिए आया है?

- |        |                  |
|--------|------------------|
| ■ चेतक | ■ महाराणा प्रताप |
| ■ कवि  | ■ शत्रु          |

(ख) अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने?



### पंक्तियों पर चर्चा

पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर समझाइए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।

(क) “निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में।”

(ख) “भाला गिर गया, गिरा निषंग, हय-टापों से खन गया अंगा।”



### मिलकर करें मिलान

मुहूर्मुहूर

124

कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं।



पंक्तियाँ	भावार्थ
1. राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था।	1. शत्रु की सेना पर भयानक बज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता।
2. वह दौड़ रहा अरि-मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था।	2. हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो।
3. जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था।	3. शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो।
4. राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था।	4. चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा-सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था।
5. विकराल बज्र-मय बादल-सा अरि की सेना पर घहर गया।	5. वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था।



## शीर्षक

यह कविता ‘हल्दीघाटी’ शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक ‘चेतक की वीरता’ दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों?



## कविता की रचना

“चेतक बन गया निराला था।”

“पड़ गया हवा को पाला था।”

“राणा प्रताप का कोड़ा था।”

“या आसमान पर घोड़ा था।”

चेतक की वीरता



रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने-लिखने में थोड़े मिलते-जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्रायः कविता में आती है। कभी-कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए।



## शब्द के भीतर शब्द

“या आसमान का घोड़ा था।”

‘आसमान’ शब्द के भीतर कौन-कौन से शब्द छिपे हैं—

आस, समान, मान, सम, आन, नस आदि।

अब इसी प्रकार कविता में से कोई पाँच शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द खोजिए।

## पाठ से आगे



### आपकी बात

“जो तनिक हवा से बाग हिली

लेकर सवार उड़ जाता था।”

- (क) ‘हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला’ कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें।  
(ख) कहीं भी, किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए।  
इस पर आपस में बात कीजिए।



## समानार्थी शब्द

कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे— हय, अश्व और घोड़ा। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं।

यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर धेरा बनाइए जो समानार्थी न हों—



1.	हवा	अनल	पवन	बयार
2.	रण	तुरंग	युद्ध	समर
3.	आसमान	आकाश	गगन	नभचर
4.	नद	नाद	सरिता	तटीनी
5.	करवाल	तलवार	असि	ढाल



## आज की पहेली

बूझो तो जानें

- तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान।  
दिन में जगता, रात में सोता, यही मेरी पहचान॥
- एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला।  
बाँध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर।
- रात में हूँ दिन में नहीं, दीये के नीचे हूँ ऊपर नहीं  
बोलो, बोलो— मैं हूँ कौन?
- मुझमें समाया फल, फूल और मिठाई  
सबके मुँह में आया पानी मेरे भाई।
- सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं  
शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं।



## खोजबीन के लिए

1. महाराणा प्रताप कौन थे? उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करके लिखिए।
2. इस कविता में चेतक एक ‘घोड़ा’ है। पशु-पक्षियों पर आधारित पाँच रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार-पत्रिका पर लगाइए।

